



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1022) पटना, मंगलवार, 3 जून 2025

सं० 2/आरोप-01-33/2016-19215/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
2 दिसम्बर 2024

श्री अरुण कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-469/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध वासगीत पर्चा वाद संख्या-05/1997-98 के अभिलेख में गडबड़ी करने संबंधी आरोप के लिए आरोप-पत्र गठित की गयी।

विभागीय पत्रांक-23444 दिनांक, 27.12.2023 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की गयी। श्री झा के पत्र दिनांक 04.01.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसे असंतोषजनक पाते हुए इनके विरुद्ध आरोपों की वृहत् जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के संगत प्रवधानों के तहत संकल्प ज्ञापांक-2917, दिनांक-19.02.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-7173, दिनांक-15.10.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष है कि :-

“वासगीत पर्चा दिनांक-20.02.1999 को निर्गत हुआ है, जबकि आरोपी पदाधिकारी श्री अरुण कुमार झा, तत्कालीन अंचलाधिकारी, खगड़िया द्वारा अंचलाधिकारी, खगड़िया के पद पर दिनांक-24.02.1999 के अपराहन में अपना योगदान समर्पित किया गया तथा श्री झा द्वारा दिनांक-25.02.1999 से अंचलाधिकारी, खगड़िया के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रसंगाधीन पर्चा श्री झा नहीं, बल्कि उनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी (श्री इन्द्रदेव राम) द्वारा निर्गत किया गया है। उपर्युक्त मामले में उनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी के साथ-साथ तत्कालीन प्रभारी लिपिक एवं हल्का कर्मचारी दोषी है।”

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री झा द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या-05/1997-98 के अभिलेख में गड़बड़ी किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। श्री झा द्वारा दिनांक-24.02.1999 के अपराह्न में योगदान समर्पित किया गया तथा दिनांक 25.02.1999 से अंचलाधिकारी, खगड़िया के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया गया था। प्रसंगाधीन पर्चा श्री झा नहीं, बल्कि उनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया था।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री झा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने एवं वासगीत पर्चा वाद संख्या-05/1997-98 के अभिलेख में गड़बड़ी किये जाने के लिए दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा श्री झा के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरुण कुमार झा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-469/11, तत्कालीन अंचल अधिकारी, खगड़िया सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2917, दिनांक 19.02.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन दास,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)1022-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>